

## CLASS -4

### SUBJECT-2<sup>ND</sup> LANGUAGE HINDI

#### CHAPTER- 6

### सफाई की जगमगाहट

#### WORKSHEET

#### सार:-

- बच्चों जब भी कोई त्योहार आने वाला होता है तो हम सब बहुत खुश हो जाते हैं और उसकी तैयारियों में जुट जाते हैं। जैसे, खाना-पीना, मिठाइयाँ बनाना और घर सजाना इत्यादि। ये सब चीजें हमारे मन को खुशियों से भर देती हैं। जैसे ही त्योहार खत्म हो जाता है तो हम सब अपने घर की साफ- सफाई में लग जाते हैं। परंतु हम अपने आस पास और अपने घर के बाहर जो कचरा फेंकते हैं उसकी सफाई पर ध्यान नहीं देते हैं। आज हम एक ऐसी कहानी पढ़ेंगे जिसमें हमें यह जानने का मौका मिलेगा कि किस प्रकार एक दीपक नाम के लड़के ने दीवाली के मौके पर एक नई जगमगाहट पैदा कर किस प्रकार दीवाली मनाई।
- एक दिन दीपक स्कूल से अपने घर लौट रहा था। कल दीवाली है, दीयों, बतियों, बल्ब, पटाखों, मिठाइयों का विचार उसके दिमाग में आते ही वह बहुत खुश हो गया। वह यह सोचने लगा कि इस बार बहुत खूब पटाखे जलाएगा, खूब मिठाइयाँ खाएगा क्योंकि उसके पास अच्छे पैसे जमा हो गए थे।
- स्कूल से आते वक्त उसने देखा कि लोग अपने घर की सफाई कर रहे हैं, रंग- रोगन कर रहे हैं और जो भी कूड़ा - कचरा है उसे घर के बाहर गली में फेंक रहे हैं।
- जैसे ही वह थोड़ा आगे बढ़ा तो उसकी नाक में बदबू का झोंका घुसा। उसने देखा कि गली के किनारे पर कचरे का ढेर पड़ा है और जानवर उसे इधर-उधर फैला रहे हैं।

● दीपक को अपने प्रधानाध्यापक की कही हुई बात याद आई जो उन्होंने दीवाली की शुभकामनाएँ देते वक्त प्रार्थना सभा में कहा था उन्होंने कहा था कि दीवाली के अवसर पर जितना महत्व दीयों का है उतना ही महत्व साफ-सफाई का भी है। इसलिए हमें अपने घर की सफाई के साथ-साथ आसपास की सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए। थोड़ी देर बाद दीपक में देखा कि नाले का पानी सड़क पर बह रहा है परंतु कूड़े के ढेर के कारण पानी का बहाव रुका हुआ था। यह सब देखकर दीपक को बहुत दुख हुआ कि लोग अपने घरों की सफाई के साथ-साथ अपने आस-पास की सफाई पर ध्यान नहीं देते हैं।

● उसी वक्त दीपक ने अपने मन में कुछ ठाना और अपने घर की ओर चल दिया। अपने घर पहुँच कर उसने खाना खाया और अपने दोस्तों से मिलने चला गया। उसने अपनी मुहल्ले की गंदगी की बात सभी दोस्तों को बताई। तभी दीपक और उसके दोस्तों ने निश्चय किया कि इस बार दीवाली में वह अपने पैसे पटाखों पर खर्च ना करके साफ सफाई के काम में लगाएँगे।

● दूसरे दिन सभी दोस्त इकट्ठा हुए। सभी दोस्तों ने अपने बचाए हुए पैसे दीपक को दे दिए। दीपक बाजार से झाड़ू, कूड़ेदान कीटनाशक इत्यादि ले आया। सभी बच्चों ने मिलकर मुहल्ले की गंदगी को साफ किया और कचरा उठाने के लिए नगर निगम की गाड़ी को बुलवाया और कीटनाशक का भी छिड़काव किया। साथ ही साथ जगह-जगह पर कूड़ेदान को भी रखा। बच्चों ने खूब जोश से काम किया। शाम तक सफाई का पूरा काम हो गया। मुहल्ले के सभी लोग बच्चों की बहुत तारीफ कर रहे थे।

● शाम को दीयों और बतियों की जगमगाहट से चारों तरफ रोशनी फैल गई। सब लोग पटाखे जला रहे थे। परंतु दीपक और उसके साथी इस बात से खुश थे कि इस बार उन्होंने अपने बचे हुए पैसे को सही काम में लगाया। थोड़ी देर बाद दीपक और उसके दोस्तों के माता-पिता वहाँ पहुँचे और उन्होंने बच्चों को मिठाइयाँ और पटाखे दिए।

● बच्चों के माता-पिता बहुत खुश थे। उन्होंने बच्चों से कहा कि उन्हें पता था कि बच्चों ने अपने बचे हुए पैसे को साफ सफाई के काम में लगाया था। इसलिए उनके माता-पिता उनके लिए पटाखे और मिठाइयाँ खरीद कर ले आए। सभी बच्चों के माता-पिता ने अपने बच्चों को गले से लगाया और कहा कि उन्हें

बच्चों पर गर्व है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि बच्चों ने सफाई की जगमगाहट पैदा करके सही मायने में दीवाली मनाई है।

**Q1. निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए:-**

- (a) निश्चय-
- (b) अवसर-
- (c) तय-
- (d) कचरा-
- (e) तारीफ-
- (f) उपयोगी-

**Q2. एक शब्द में उत्तर दें:-**

- (a) दीपक कहाँ से घर लौट रहा था?
- (b) दीवाली के अवसर पर दीपकों के साथ-साथ और किस चीज का महत्व है?
- (c) दीपक को किसकी कही हुई बात याद आ गई?
- (d) कचरा उठाने के लिए किसकी गाड़ी को बुलवाया गया?
- (e) दीपक किससे मिलने चला गया?
- (f) चारों ओर कौन-सी दवा का छिड़काव किया गया?

**Q3. निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाएँ:-**

- (a) दीवाली-
- (b) अवसर-
- (c) उपयोगी-
- (d) निश्चय-

**Q4. सोचे और बोले:-**

- (a) स्कूल से लौटते समय दीपक क्या सोच रहा था?
- (b) नाले के पानी का बहाव क्यों रुका हुआ था ?
- (c) गलियों का कचरा किससे उठाया गया?

**EXERCISES FROM THE BACK OF THE LESSON**

**PAGE NO.34&35**

**Q3. लघु उत्तर लिखें:- (i-v)**

**PAGE NO.35.( DO IT IN THE BOOK)**

**Q4. सही पंक्ति के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाएँ:-**

**PAGE NO.35.(DO IT IN THE BOOK)**

**भाषा -मंथन :-**

**Q2. सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करें:- ( DO IT IN THE BOOK)**

**PAGE NO.36.(DO IT IN THE BOOK)**

**Q3. हर वाक्य में एक अशुद्ध है, उसे रेखांकित करें और शुद्ध शब्द लिखें:- ( DO IT IN THE BOOK)**

**PAGE NO.36.**

**सुलेख लिखिए:-**